

India, other G20 nations vow to crack down on tax evasion

NO CLIMATE INTOLERANCE

Beijing: Sticking to its guns, China on Saturday again justified its decision to block India's bid to get JeM chief Masood Azhar designated as a terrorist by the UN and described its stance as "fair and based on facts".

"China always deals with the listing of 1267 committee based on facts and pursuant to UN Security Council resolutions and relevant rules in a fair manner," Chinese Foreign Ministry said in response to India's Permanent Representative to the UN Syed Akbaruddin's criticism of "hidden veto" in dealing with the listing of terrorist outfits and their leaders.

College student detained in China for beheading roommate

Beijing: A college student in southwest China's Sichuan Province has been detained by the police after he allegedly beheaded his roommate following an altercation over music. Police in Chengdu city has confirmed the detention and the murder which took place last month.

The victim, identified by his surname Lu, was a freshman in Sichuan Normal University.

He was stabbed over 50 times and beheaded by his roommate, identified by the surname Teng, around midnight, state-run *Xinhua* news agency quoted Lu's relative as saying.

PTI



"We have noticed the remarks by India's Permanent Representative to the UN," the Foreign Ministry said in written response to a question.

"Both China and India fall victim to terrorism and share similar positions when it comes to combating terrorism," it said. China is one of the five veto-wielding members of the UNSC which plays a leading role in banning terrorist outfits.

"China supports the UN in playing a leading role in international anti-terrorism cooperation and takes an active part in international anti-terrorism cooperation," the Ministry said.

PTI

London: London Mayor Boris Johnson has accused US President Barack Obama of hypocrisy for supporting those who want Britain to stay in the European Union.

Speaking just days before the American leader travels to London, Johnson told the BBC there is no way the United States would share sovereignty the way EU membership requires.

Obama has voiced support through aides for the United Kingdom remaining in the EU. But the White House has suggested that during his visit the President will stress that it is up to the British people to decide their future in a June 23 referendum.

Johnson says that while Obama has the "perfect right to make any intervention he likes," it is "nakedly hypocritical" to lend his weight to the campaign to stay in the EU.

AP




Los Angeles: If Bernie Sanders can pull off an upset in California, it will be a story that got its start on Hollywood Boulevard. In a building that saw the likes of film stars and movie moguls and later was damaged in the 1994 Northridge earthquake, Sanders' newly-leased Los Angeles headquarters is where his campaign will ultimately go big or go home.

Steering the effort is Michael Ceraso, a rangy, goateed 34-year-old who, seven months ago, was working as a deputy program director for Airbnb. He'd never run a statewide campaign.

Sanders is trailing in state polls but "what gives us an advantage is people power," said Ceraso, alluding to the fervent crowds of 20-and 30-somethings at the Senator's full-house rallies.

With time growing short in the primary season, California's June 7 contest could be a decisive showdown.

Sanders told cheering supporters in a Los Angeles theater in March that if he wins delegate



BERNIE SANDERS SAYS MET WITH POPE FRANCIS

Rome: Democratic presidential candidate Bernie Sanders said in an interview that he met with Pope Francis on Saturday, describing the meeting as a "real honour." Sanders told that the meeting took place before the pope left for his one-day visit to Greece. He said he was honored by the meeting, and that he told the Pope he appreciated the message that he is sending the world about the need to inject morality and justice into the world economy.

AP

rich California by a significant margin "we are going together to the White House."

AP

UJVN Limited
H.O.: "UJJWAL", Maharani Bagh, GMS Road, Dehradun-248006
Telephone: 0135-2763508, 2523100 Fax: 0135-2763507
SIN No.: U40101UR2001SGC025866 Website: www.uttarakhandjalvidyut.com

Corrigendum No.11 (Time Extension) e-Procurement Notice
Bid Identification No.: 01/DGM(M&U-YV)/2014-15

Due to unavoidable circumstances, due dates of bidding for "Renovation, Modernization and Up-gradation of Dhalipur HEP (3x17MW) invited by Dy. General Manager (M&U-Yamuna Valley) UJVN Limited, Hydrel Colony Dhalipur-248142, Dehradun, Uttarakhand, India for & on behalf of UJVN Limited are revised as per following details:

1. Last date/Time for receipt of bid in the portal on : 21.06.2016 up to 17.00 Hrs
2. Date of opening of bid (Part-I) on the website on : 24.06.2016 at 11.00 Hrs

Details of subsequent addendum/corrigendum/ cancellation etc. may be obtained from the website. Further details can be seen from the e-procurement portal <http://uktenders.gov.in>

पत्र सं : 240 / यूजेवीएन लि / म.प्र. (प्र. नि. का.) / विज्ञापन दिनांक : 16.04.2016

"AVOID WASTEFUL USE OF ELECTRICITY"

ATLAS JEWELLERY INDIA LIMITED
CIN: L74140DL1989PLC131289
Reg. Off.: DTJ-224, 11nd Floor, DLF Tower "B", Plot No.11, Jasola District New Delhi-110025
Email: info@atlasjewelleryindia.com, Phone: 011- 40541077 / 41041149
Web: www.atlasjewelleryindia.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 under SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the ATLAS Jewellery India Limited will be held on Saturday, the 23rd April, 2016 at its registered office to inter alia consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the 04th Quarter/Year ended on March 31, 2016.

A copy of said Notice and Audited Financial Results shall also be available on the company's website at www.atlasjewelleryindia.com and may also be available on the website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com.

Pursuant to the Company's - Code of conduct for prevention of Insider Trading, the Trading Window for dealing in the securities of the Company shall remain closed for the directors and other employees covered under the Code from 06:00 P.M. on Saturday, April 16, 2016 and end 48 hours after the results are made public i.e. on Monday, April 25, 2016 (both days inclusive).

By the Order of the Board
FOR ATLAS JEWELLERY INDIA LIMITED
Sd/-
Chandan Mahapatra
(Company Secretary & CFO)

Date : 16th April, 2016
Place : New Delhi



आरएसएस, भाज

किसान को गाली मार दी। घायल को नाजुक हालत में ग्रेटर नोएडा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र ने गांव के ही दो लोगों को नामजद करते हुए रबपुरा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। वारदात के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं। पुलिस अनुसार रबपुरा के गांव मुरादगढ़ी निवासी किसान जगत सिंह 42 पुत्र गया सिंह गांव में रहकर खेती-बाड़ी करता था। आरोप है कि गांव का ही सोनू पुत्र विकल प्रत्येक दिन जगत की गली के चक्कर काटता रहता था। करीब तीन दिन पहले जगत ने इसका विरोध करते हुए उसे टोक दिया था। इसी बात को लेकर दोनों बीच कहासुनी के बाद गाली-गलौच हो गई थी। शुक्रवार रात को किसान के पड़ोसी किशनपाल के यहां माता का जागरण था। करीब नौ बजे जगत जागरण से वापस आकर घर पर खाना खा रहा था। इस दौरान सोनू किसान के घर पहुंचा और बात करने के बहाने उसे घर से बाहर ले आया। आरोप है कि घर के बाहर पहले से घात लगाये बैठा सोनू का साथी योगेश पुत्र महेश ने जगत के सीने पर तमंचा सटकार गोली मार दी। लहलुहान अवस्था में घायल ने भागने का प्रयास किया तो आरोपियों ने जगत को दोबारा गोली मार दी। गोली की आवाज सुन परिजन व ग्रामीण मौके की ओर दौड़े जिन्हें देख आरोपी फरार हो गये। परिजनों ने घायल को तुरन्त गम्भीर अवस्था में ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान किसान की मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है। मृतक के पुत्र रोहुल ने सोनू व योगेश के खिलाफ पिता की हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस आरोपियों की

युवक पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का आरोपी लगाया है। पीडित ने थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मिली जानकारी के अनुसार डेरीन गांव निवासी रूपेंद्र कुमार का आरोप है कि 15 अप्रैल बीती रात को वह अपने खेत पर गेहूँ लेने के लिए जा रहा था। तभी गांव का युवक शिबू ने सुपर टैंक कंपनी के नजदीक जबरन रास्ता रोकर गाली-गलौच करके झगड़े पर उतारू हो गया। जब इस बात का विरोध किया तो आरोपी ने मारपीट शुरू कर दी। आरोप ने पीडित को थाने में शिकायत देने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। हिम्मत दिखाकर पीडित ने आरोपी के खिलाफ थाने में जाकर मामला दर्ज कराया है। दनकौर एसएचओ जितेंद्र सिंह कालरा का कहना है कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

छात्र और प्रोफेसर करेंगे केंद्रीय मंत्री के घर का घेराव

नोएडा। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में व्यास भ्रष्टाचार के खिलाफ फेस फाइट अग्रेस्ट करण इन एजुकेशन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति इरानी के दिल्ली स्थित आवास का घेराव करेगा। बीटा सेक्टर में हुई बैठक में संगठन ने घेराव का निर्णय लिया। बैठक में नॉलेज पार्क के साथ ही आस.पास के जिलों के विभिन्न कॉलेजों के छात्रों व प्रोफेसरों ने हिस्सा लिया। निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेकनिकल एजुकेशन संगठन के द्वारा विभिन्न नियम बनाए गए हैं। जबकि, कॉलेजों के द्वारा इन नियमों को फॉलो नहीं किया जाता है। अपने लाभ के लिए कॉलेजों द्वारा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़

स्थित एयरचून है। देर सि ताला ए डेड कु कर ईने पर क की में इस एकायत क नहीं क अ रापुरम मिगाकर घेने शव क दिया एकाधरा 11(२५) ठा की रे में नो कर अ स्पष्ट ममामले की लेने हुतार मव्यापार पीविस्तार पुरिजिला खिरी को मिधुरक्षक गांधनयुक्त कि बाद परि के में गी पर देख कपड़े का यन का को की। परिर्दनेटर आरतीय, मक संजय था। डा.

नरेन्द्र गुप्ता नन्दी, हरिओम पाण्डेय आदि उपस्थित रहे।

तीन वाहन चोर गिरफ्तार

गाजियाबाद। थाना लिंक रोड पुलिस ने तीन वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से छह वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस टीम पकड़े गए आरोपियों को और वाहनों की बरामदगी कराने के लिए ले गई है। एसएचओ ने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर वाहनों की बड़ी बरामदगी होने की उम्मीद है।

स्वच्छता मिशन के तहत निकाली गयी रैली

गाजियाबाद। जय हिंद जन सेवा कल्याण समिति द्वारा

चौक से जीडीए कॉलोनी तक रैली के साथ स्वच्छता पर व्यापक जानकारी देते हुए सफाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पीओ डूडा इंद्रसेन सिंह, अपर नगरायुक्त, मानू प्रिया, समिति अध्यक्ष जूली शुक्ला, भानु तिवारी आदि उपस्थित रहे।

सार्वजनिक सूचना

एकता विहार सीजीएस लि., 9, आईपी एक्सटेंशन, दिल्ली- 110092 प्रतिष्ठित लिफ्ट निर्माताओं से इसकी 18 लिफ्ट्स के आधुनिकीकरण हेतु कोटेशन आमंत्रित करती है। इच्छुक पार्टियां जो आईपी एक्सटेंशन एरिया में इस प्रकार के कम से कम 5 कार्य पूर्ण कर चुकी हैं/आधुनिकीकरण कर चुकी हैं, अपने कोटेशन इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 10 दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकती हैं। अतिरिक्त विवरण के लिए सोसायटी के कार्यालय में सम्पर्क करें।



King George's Medical University U.P., Lucknow

Notice No.: 150/PS/FO/2016-17

Date: 16.04.2016

Re-Tender Inviting Notice

Sealed Tenders are hereby invited under two bid systems latest by **30.04.2016** for the purchase of equipments/ instruments for **Department of Radiodiagnosis** from the original manufactures or their authorized Indian Agents on the terms and conditions as per tender document. The details of the equipments can be viewed at website : www.kgmcindia.edu/www.kgmu.org Finance Officer

एटलस ज्वैलरी इंडिया लिमिटेड

सीआईएन : L74140DL1989PLC131289

पंजी. कार्यालय : डीटीजे-224, द्वितीय तल, डीएलएफ टावर-बी, प्लॉट सं. 11,

जासोला जिला, नई दिल्ली-110025

ई-मेल : info@atlasjewelleryindia.com फोन : 011-40541077 / 41041149

वेब : www.atlasjewelleryindia.com

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में एटलस ज्वैलरी इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की एक बैठक शनिवार, 23 अप्रैल, 2016 को इसके पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य के साथ 31 मार्च, 2016 को समाप्त चतुर्थ तिमाही/वर्ष हेतु कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन किया जाएगा।

सक्त सूचना तथा लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.atlasjewelleryindia.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

अंतरंगी व्यापार की रोकथाम के लिए कंपनी की आचार संहिता के अनुसरण में, कंपनी की प्रतिभूतियों में लेन-देन हेतु व्यापार खिड़की, निदेशकों तथा संहिता के अखीन आवृत्त अन्य कर्मचारियों के लिए, शनिवार, 16 अप्रैल, 2016 के अप. 06.00 बजे से परिणाम सार्वजनिक किए जाने के बाद 48 घंटे की अवधि समाप्त होने अर्थात् सोमवार, 25 अप्रैल, 2016 (दोनों तिथियां सहित) तक बंद रहेंगी।

नोट के आदेशानुसार
बृते एटलस ज्वैलरी इंडिया लिमिटेड
हस्ता./-

चन्दन महापात्रा

(कम्पनी सैक्रेटरी एवं सीएफओ)

तिथि : 16 अप्रैल, 2016
स्थान : नई दिल्ली

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक चन्दन मित्रा द्वारा, सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। सम्पादक: चन्दन मित्रा, स्थानीय सम्पादक: उषा श्रीवास्तव। दूरभाष नंबर: (011) 40754100, 2